



सरकार / Govt. Of India

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात का कार्यालय

Office of the Principal Chief Commissioner of Income tax, Gujarat

कमरा नं. 202, दूसरी मंजिल, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009

Room No. 202, 2nd Floor, Aayakar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009

दूरभाष: Tele./फैक्स Fax : (079) 27546037 E-mail Id: ahmedabad.dcit.hq.coord@incometax.gov.in

स. PCCIT/ABD/JC-HQ-Coord/17(2) (ii)(b)/F.No.-35/vol.ii/19-20

दिनांक: 04.08.2020

To,
The Dy. Commissioner of Income -Tax (Admn.).
O/o Pr. Chief Commissioner of Income- Tax, Gujarat.

Sir,

Sub: Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to clause (2) of section 17 of the IT Act 1961, in the case of (1) Occura Eye Care & Research Center, (Health Care Unit of Astron Pacakging Ltd.)Corporate House , Nr. Sola Bridge , S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad (2) M/s Chandni Hospital Pvt. Ltd., 9/60, Arya Nagar, Kanpur (3) Sparsh Multispeciality Hospital (A unit of Paedia Health Pvt. Ltd.), Ward No.-06, Contractor Colony, Dewarpara, Supela, Bhilai, Distt.- Durg(C.G), Pin 490023 (4) SMC Hospital Institute and IVF Research Centre Pvt. Ltd. at the address- VIP Estate, Infront of BSNL, Vidhan Sabha Road, Near Ashoka Ratan, Shankar Nagar, Raipur,(C.G.) , 492007(5) M/s Jeel Children Hospital and Neonatal & Vaccination Centre located at 8/A, Navinchandra Park, Civil Camp Road, Shahibaug, Ahmedabad-380004, Kindly refer to the above subject.

2. This office has received (1) No.CC-1/ABD/HQ/17(2)/OEC&RC-03/2019-20 dated 14/07/2020 received from DCIT (HQ)-1, Ahmedabad (2)F.No.Pr.CCIT/KNP/DCIT(T&J)/17(2)(ii)(b)/2(31)/2016-17dated15/06/2020 received from JCIT, Kanpur (3)F.No.CCIT/RPR/Tech/17(2)-03/2019-20 dated 24/06/20 received from ITO (Tech & TPS-1), Raipur(4) F.No.CCIT/RPR/Tech/17(2)-07/2019-20 dated 24/06/20 received from ITO (Tech & TPS-1),Raipur(5) No.CCIT-2/ABD/HQ/17(2)/Jeel/82/2020-21 dated 15/07/2020 received from ITO (HQ)-2, Ahmedabad, Regarding approval under sub-clauses (b) of clause (ii) of the proviso to clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 to the following hospitals:-

(1.) Occura Eye Care & Research Center, (Health Care Unit of Astron Pacakging Ltd.)Corporate House , Nr. Sola Bridge , S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad (2) M/s Chandni Hospital Pvt. Ltd., 9/60, Arya Nagar, Kanpur (3) Sparsh Multispeciality Hospital (A unit of Paedia Health Pvt. Ltd.), Ward No.-06, Contractor Colony, Dewarpara, Supela, Bhilai, Distt.- Durg(C.G), Pin 490023 (4) SMC Hospital Institute and IVF Research Centre Pvt. Ltd. at the address- VIP Estate, Infront of BSNL, Vidhan Sabha Road, Near Ashoka Ratan, Shankar Nagar, Raipur,(C.G.) , 492007(5) M/s Jeel Children Hospital and Neonatal & Vaccination Centre located at 8/A, Navinchandra Park, Civil Camp Road, Shahibaug, Ahmedabad-380004. In this regard, I am directed to forward the same for kind perusal and uploading it on www.incometaxgujarat.org.

[Handwritten signature]

Yours Faithfully



[Handwritten signature]
(Dhiraj Ganji)

ACIT (HQ) (Co-ordination)

For Pr. Chief Commissioner of Income tax (Guj),
Ahmedabad

[Handwritten note]
सीएम
02/08/20
आयकर

Encl: - As above.





अपर आयुक्त (मुख्या.)	आयुक्त (कार्यालय)
अपर आयुक्त (मुख्या.)	आयुक्त (मुख्या.)
अपर आयुक्त (मुख्या.)	आयुक्त (मुख्या.)
अपर आयुक्त (मुख्या.)	आयुक्त (मुख्या.)

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

कार्यालय- मुख्य आयुक्त आयुक्त-1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX-1, AHMEDABAD

द्वितीय तल, आयुक्त भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009
2nd Floor, Aayakar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad-380009
टेलीफोन/Telephone No.079 27546435 फैक्स/Fax No:079 27546435

No.CC-1/ABD/HQ/17(2)/OEC&RC-03/2019-20

दिनांक : 14/07/2020

विषय : आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii)(ii)(बी) के अधीन औक्युरा आई केयर एंड रिसर्च सेंटर (हेल्थकेयर यूनिट- अस्ट्रोन पैकेजिंग लिमिटेड), कॉर्पोरेट हाउस, निकट- सोला ब्रिज, एस. जी. हाइवे, थलतेज, अहमदाबाद को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में--
(पैन: AAECA0093L)

अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या.) (समन्वयक)
कार्या. प्रधान मुख्य आयुक्त अ.यु., अ.दाद
16 JUL 2020
क्रमांक.....

Sub : Approval U/s 17(2)(viii)(ii)(b) of the I. T. Act, 1961 in respect of Occura Eye Care & Research Center, (Healthcare Unit of Astron Packaging Ltd), Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad (PAN: AAECA0093L) – reg

आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii)(ii)(बी) के अधीन आदेश

आयुक्त नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

औक्युरा आई केयर एंड रिसर्च सेंटर (हेल्थकेयर यूनिट- अस्ट्रोन पैकेजिंग लिमिटेड), कॉर्पोरेट हाउस, निकट- सोला ब्रिज, एस. जी. हाइवे, थलतेज, अहमदाबाद को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act,1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules,1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Occura Eye Care & Research Center, (Healthcare Unit of Astron Packaging Ltd), Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad

2. तदनुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयुक्त नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 15,16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयुक्त में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment of any other member of his/her family

अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या.) (समन्वयक)
(मुख्या.) (कार्या.)
अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या.)
(मुख्या.) (कार्या.)
16 JUL 2020



15 JUL 2020
DIT/1

at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules, 1962, shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15, 16 and 17 of the Income tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख 14/07/2020 से 13/07/2023 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of three years from 14/07/2020 to 13/07/2023 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(a) The approval is not transferable,

(ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।

(b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।



- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- (d) The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

--Sd--

(सुमंत सिन्हा)

(SUMANT SINHA)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, औक्युरा आई केयर एंड रिसर्च सेंटर (हेल्थकेयर यूनिट- अस्ट्रोन पैकेजिंग लिमिटेड), कॉरपोरेट हाउस, निकट- सोला ब्रिज, एस. जी. हाइवे, थलतेज, अहमदाबाद

**The Director, Occura Eye Care & Research Center, (Healthcare Unit of Astron Packaging Ltd),
Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
- (1) The Secretary, CBDT, New Delhi.
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद ।
- (2) Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
3. मुख्य आयकर आयुक्त-2 / (टीडीएस), अहमदाबाद ।
- (3) The CCIT-2 / (TDS), Ahmedabad.
5. मुख्य आयकर आयुक्त, वडोदरा / सुरत / राजकोट ।
- (5) The CCsIT, Baroda/ Rajkot / Surat.
6. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), अहमदाबाद।
- (6) The DGIT (Inv), Ahmedabad
7. प्र. आयकर आयुक्त - 1/2/3/4/5/6/7, अहमदाबाद & प्र. आयकर आयुक्त- गांधीनगर
- (7) Principal Commissioners of Income tax - 1/2/3/4/5/6/7, Ahmedabad & PCIT- Gandhinagar
8. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-1(1), अहमदाबाद।
- (8) The Addl. CIT, Range-1(1), Ahmedabad.
9. उप आयकर आयुक्त, - सर्कल- 1(1)(1), अहमदाबाद
10. आयकर अधिकारी, (जनसम्पर्क / कल्याण), अहमदाबाद।
11. गार्ड फाईल।



(प्रशांत कुमार जैन)(Prashant Kumar Jain)

उप आयकर आयुक्त, (मुख्या.)-1/DCIT(HQ)-1,

कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1/for Chief Commissioner of Income-tax-1, Ahmedabad





कार्यालय

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

उ०प्र० (पश्चिम) एवं उत्तराखंड

आयकर भवन, 16/69, सिविल लाइन्सकानपुर, (उ.प्र.)-208 001

फोन व फैक्स सं०: 0512-2304418

आदेश

दिनांक:15.06.2020

विषय : मे० चांदनी हॉस्पिटल (प्रा०) लिमिटेड, 9/60, आर्य नगर, कानपुर के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(ii)(b) के अधीन अस्पताल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (vii) के नीचे दिये गये पहले परंतुक के उपखंड (ii)(b) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (vii) के नीचे दिये गये पहले परंतुक के उप-खंड (ii)(b) के उद्देश्य के लिए मे० चांदनी हॉस्पिटल (प्रा०) लिमिटेड, 9/60, आर्य नगर, कानपुर, को अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

2. किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य का मे० चांदनी हॉस्पिटल (प्रा०) लिमिटेड, 9/60, आर्य नगर, कानपुर में आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3A(2) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित रोग अथवा बीमारी के सम्बन्ध में किए गये किसी भी खर्च के प्रति नियोजक द्वारा संदत्त राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि के रूप में नहीं माना जाएगा तथा इस राशि पर कर्मचारी को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

उपनियम सं.	नियम 3A(2) के अधीन निर्धारित बीमारी अथवा रोग
(a)	कैंसर
(b)	तपेदिक
(c)	अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिसिएंसी सिंड्रोम
(d)	हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंतःस्त्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो।
(e)	आँख, कान, नाक अथवा गले संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो।
(f)	अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो।
(g)	स्त्री संबंधी या प्रसूति संबंधी व्याधि या जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक इन्टरवेंशन की आवश्यकता हो।
(h)	ऊपर (d) में आर्गन्स की व्याधि या रोग जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।
(i)	स्त्रीरोग अथवा प्रासविक रोग या व्याधि जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों के अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)	अधीन अपर आयकर आयुक्त (न्यायिक)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (कार्मिक)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (कार्मिक)
अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)	अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (कार्मिक)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)	अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (समन्वय) कार्या. प्रधान मुख्य आयकर अं.यु. अ.वा.द.

24 JUN 2020

क्रमांक.....



**OFFICE OF THE
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX
U.P. (WEST) & UTTARAKHAND REGION
AAYAKAR BHAWAN, 16/69, CIVIL LINES, KANPUR (U.P.)-208 001
Phone & Fax No: 0512-2304418**

O R D E R

Dated: 15.06.2020

SUB: Renewal of Approval of M/s Chandni Hospital Pvt. Ltd., 9/11, Arya Nagar, Kanpur under sub-clause (b) of Clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961-regarding

In exercise of the powers vesting with the undersigned under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of section 17 (2) of the Income Tax Act, 1961 read with rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 approval is hereby accorded to **M/s Chandni Hospital Pvt. Ltd., 9/11, Arya Nagar, Kanpur** for the purpose of said sub clause.

2. Any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned Hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of sections 15, 16 & 17 of the Income Tax Act 1961:-

Sub-Rule No.	Diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2)
(a)	Cancer
(b)	Tuberculosis
(c)	Acquired immunity deficiency syndrome
(d)	Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine gland or the skin, requiring surgical operation.
(e)	Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation.
(f)	Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation orthopedic treatment.
(g)	Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention.
(h)	Ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(i)	Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(j)	Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

AD 2ⁿ

(j)	जलने से क्षति जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।
(k)	मानसिक विकृति-तंत्रिका या मनोरोगी -जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।
(l)	ड्रग एडिक्शन, जिसमें कम से कम लगातार सात दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।
(m)	एनाफिलैक्टिक शॉक्स जिसमें इन्सुलिन शॉक्स, औषधि प्रतिघात एवं अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।

3. नियोजक ऐसी राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन कर कटौती करने का उत्तरदायी नहीं होगा। अस्पताल उपचार प्राप्त करने वाले कर्मचारी के संलग्न प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसमें रोग एवं बीमारी जिसके लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया गया हो एवं संगत बिलों के साथ अस्पताल को किये गये भुगतान एवं दवाईयों के लिए वहन किये गये खर्च की रकम का उल्लेख हो।

4 यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (vii) के नीचे दिये गये पहले परंतुक के उप-खंड (ii)(b) के उद्देश्य के लिए है एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

5 यह अनुमोदन दिनांक 18.05.2020 से 17.05.2021 तक प्रभावी है एवं यह अनुमोदन किसी भी समय रद्द या वापस किया जाएगा यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखे से प्राप्त किया गया है या तथ्यों को गलत प्रदर्शित किया गया है या ऐसे अनुमोदन के लिए आवश्यक आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3A के अधीन सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालक के अधीन है और ऐसे परिवर्तन जो आवश्यकतानुसार अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रवधानों में किसी संशोधन के अधीन है।

6. इस अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है :-

(i) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(ii) विधिवत प्राधिकृत किये गये आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समयों पर खुला रहेगा।

(iii) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3A के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अस्पताल यदि कानून द्वारा निर्धारित किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है तो अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य को अनुमोदन जारी करने वाले प्राधिकारी के पास तुरंत सूचित करें।

(iv) अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु वर्तमान अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 60 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टा०/-

(डॉ. पी. एस. पुनिहा)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

उ०प्र०; पश्चिम एवं उत्तराखंड रीजन

कानपुर

क्रमशः ...3...

19/5 ✓

(k)	Mental disorder – neurotic or psychotic – requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(l)	Drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days.
(m)	Anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum. The Hospital shall issue a certificate to the employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the hospital and for medicines along with the relevant bills.

4. The approval accorded as above is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income Tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. The approval is effective from 18.05.2020 to 17.05.2021. This approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained through fraud and or misrepresentation of facts, or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.


6. The order of the approval is subject to following terms and conditions:-

(i) This approval is not transferable.

(ii) The Hospital shall at all reasonable times be open for inspection by the authority of Income tax Department, duly authorized in this behalf.

(iii) This approval is subject to hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income Tax Act, 1961.

(iv) The application for renewal of approval should be submitted at least 60 days before the expiry of the current approval.



Sd-
(Dr. P. S. Puniha)
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
U.P.(W) & Uttarakhand Region,
Kanpur


Contd. to page 3....

(स्पीड पोस्ट)
सेवा में,
डायरेक्टर
मे० चांदनी हॉस्पिटल (प्रा०) लिमिटेड,
9/60, आर्य नगर,
कानपुर

फा०सं० Pr.CCIT/KNP/DCIT(T&J)/17(2)(ii)(b)/2(31)/2016-17 ³⁵⁷ दिनांक:15.06.2020

सूचना के लिए प्रति:

1. सचिव, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उत्तर खंड, नई दिल्ली।
2. भारत के समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त।
3. प्रधान आयकर आयुक्त- I/II, कानपुर/आगरा।
4. आयकर आयुक्त (टी०डी०एस०), कानपुर।


(विजय रंजन सिन्हा)
संयुक्त आयकर आयुक्त
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
कानपुर

(SPEED POST)


To,
The Director,
M/s Chandni Hospital Pvt. Ltd.,
9/60, Arya Nagar, Kanpur

F.No. Pr.CCIT/KNP/DCIT(T&J)/17(2)(ii)(b)/2(31)/2016-17/

Dated: 15.06.2020

Copy forwarded to

1. The Secretary, Central Board of Direct Taxes, North Block, New Delhi.
2. All Pr. Chief Commissioners of Income Tax in India.
3. The Pr. Commissioner of Income Tax-I & II, Kanpur
4. The Commissioner of Income Tax (TDS), Kanpur.


(Vijay Ranjan Sinha)
Jt. Commissioner of Income Tax
For Pr. Chief Commissioner of Income Tax
Kanpur

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त

केन्द्रीय राजस्व भवन,

सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) 492 001

Phone No. 2331928/2331600 Fax: 0771-2426347



सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Finance Deptt. of Revenue

Office of the Chief Commissioner of Income Tax

Central Revenue Building,
Civil Lines, Raipur (C.G.) 492 001

E mail: raipur.ccit@incometax.gov.in


ORDER

24/06/2020

In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income Tax Act, 1961 to the Chief Commissioner of Income Tax and having regard to the guidelines prescribed in Notification No. 758(e) dated 07/10/1992 for grant of approval of a hospital under section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 Sparsh Multispeciality Hospital (A Unit of Paedia Health Private Limited), Ward No. - 06, Contractor Colony, Dewarpara, Supela, Bhilai, Distt. - Durg (C.G.), Pin 490023 is hereby approved for the purpose of diagnosis and treatment of the following ailments prescribed under sub rule (2) of Rule 3A:

- Cancer;
- Tuberculosis;
- Acquired Immunity deficiency syndrome;
- Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
- Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat requiring surgical operation;
- Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment.
- Gynecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
- Ailment or disease of the organs mentioned at (d) requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- Gynecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- Mental disorder - neurotic or psychotic - requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- Drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;
- Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

Any sum paid by an employer to Sparsh Multispeciality Hospital (A Unit of Paedia Health Private Limited), Ward No. - 06, Contractor Colony, Dewarpara,




अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (समन्वयक)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्यालय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्यालय)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सि.गो.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सि.गो.)

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (समन्वयक)	संबंधी अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (न्यायिक)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्यालय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्यालय)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सि.गो.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (सि.गो.)

Supela, Bhilai, Distt. - Durg (C.G.), Pin 490023 for the purpose of medical treatment of the disease or ailments concerning above on account of treatment of an employee or any member of the family of the employee shall not be treated as a perquisite for the purpose of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 and such sum shall not be liable for deduction of tax u/s 192 of the I. T. Act in respect of such sum.

The approval is only for the purpose of sub-section (2) of Section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income Tax, Raipur (C.G) or any other statutory under the Government for any other purpose.

Above approval shall remain in force till three years from the date of its issue subject to the terms and conditions specified in notification no. 758(E) dated 07th October, 1992 remains satisfied. Failure to satisfy one or more of the conditions specified in the said notification shall result in withdrawal of the approval so granted.


(Rajkumar Lachhramaka)
Chief Commissioner of Income Tax, Raipur (C.G.)

F.No.CCIT/RPR/Tech/17(2)-03/2019-20/

Date: 24/06/2020


Copy to: -

4261

1. All the Pr. Chief/Chief Commissioner of Income Tax in India
2. The Pr. Commissioner of Income Tax in M.P./C.G. Region
3. All the Addl. CsIT/Jt. CsIT in Raipur region with request to forward a copy of this order of all A.Os under their charge.
4. The applicant hospital - Sparsh Multispeciality Hospital (A Unit of Paedia Health Private Limited), Ward No. - 06, Contractor Colony, Dewarpara, Supela, Bhilai, Distt. - Durg (C.G.), Pin 490023

Terms & Conditions

1. The approval is not transferable.
2. The hospital mentioned above shall at all reasonable time be open for inspection by such officers of the Income Tax as are duly authorized in this behalf
3. The hospital shall confirm to such conditions as are prescribed in provision below clause (ii)(b) to Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income- Tax Rules, 1962. In the event that the establishment ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the management to notify the approval issuing authority of such fact immediately.


(R.K. Satpute)
Income tax Officer (Tech & TPS-1)
For Chief Commissioner of Income tax, Raipur

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त
केन्द्रीय राजस्व भवन,
सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) 492 001
Phone No. 2424419, Fax: 0771-2426347



Government of India
Ministry of Finance Deptt. of Revenue
Office of the Chief Commissioner of Income Tax
Central Revenue Building,
Civil Lines, Raipur (C.G.) 492 001
E-mail: raipur.ccit@incometax.gov.in

ORDER

Date: 24/06/2020

An application was filed on 24/12/2018 by the applicant hospital- **SMC Hospital Institute and IVF Research Centre Private Limited** at the address - **VIP Estate, Infront of BSNL, Vidhan Sabha Road, Near Ashoka Ratan, Shankar Nagar, Raipur, (C.G.), Pin- 492007** for approval for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 read with Rule 3A(1) of the Income Tax Rules, 1962. The application along with all its enclosures have been verified and found not to be fully equipped to comply with in accordance with norms and guidelines as prescribed in Rule 3A(1) of the Income Tax Rules, 1962.

Sub Clause (i) of Rule 3A(1), 1962 states that:

"The building used for the hospital complies with the municipal bye-laws in force."

In the application, the applicant has submitted that the building used for the hospital complies with the municipal bye-laws in force.

On the contrary, on perusal of the documents submitted by the assessee, it is found that the applicant hospital under the signature of Dr. Satish Chainsingh Suryawanshi, Director of SMC Heart Institute and IVF Research Centre, Raipur has applied for completion certificate at the Municipal Authority on 03.08.2019. Further, no certificate of the completion issued by the Competent Authority has been submitted.

In view of this, it is evident that the hospital has not complied with the provisions of Rule 3A(1) of the Income Tax Rules, 1962. Hence, the application for approval for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii)

of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 read with Rule 3A(1) of the Income Tax Rules, 1962, is hereby rejected.

sd/
(Rajkumar Lachhramaka)
Chief Commissioner of Income Tax, Raipur (C.G.)

F.No. CCIT/RPR/Tech./17(2)-07/2018-19/

Date: 24/06/2020

Copy to: -

- (4279)
1. All the Pr. Chief/Chief Commissioner of Income Tax in India
 2. The Pr. Commissioner of Income Tax in M.P./C.G. Region
 3. All the Addl. CsIT/Jt. CsIT in Raipur region with request to forward a copy of this order of all A.Os under their charge.
 4. The applicant hospital - **SMC Hospital Institute and IVF Research Centre Private Limited** at the address - **VIP Estate, Infront of BSNL, Vidhan Sabha Road, Near Ashoka Ratan, Shankar Nagar, Raipur, (C.G.), Pin- 492007.**

R/K/Satpute
(R.K. Satpute)
Income tax Officer (Tech & TPS-1)
For Chief Commissioner of Income tax, Raipur



सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE**

CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX-2, AHMEDABAD

**2nd Floor, Aayakar Bhawan, Ashram Road,
Ahmedabad-380009**

Telephone No.079-27540614 Fax No:079-27540614

आयकर आयुक्त (मुख्या) (समन्वय) कार्या. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सी.ओ.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)
आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)
समाधान प्रकोष्ठ	अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)

No.CCIT-2/ABD/HQ/17(2)/Jeel/82/2020-21

Date : 15/07/2020

Order u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961

M/s. Jeel Children Hospital and Neonatal & Vaccination Centre located at 8/A, Navinchandra Park, Civil Camp Road, Shahibaug, Ahmedabad - 380 004 had sought for recognition of the Hospital under section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 vide application dated 29/07/2019 received in this office on 29/08/2019 on transfer from the Chief CIT-1, Ahmedabad vide letter dtd. 28/08/2019.

2. In this regard, report was received from the PCIT-4, Ahmedabad vide his letter dated 04/05/2020 stating that the hospital fulfills all the conditions for recognition u/s. 17(2) of the Act.

3. Accordingly, approval is hereby granted to M/s. Jeel Children Hospital & Neonatal & Vaccination Centre located at 8/A, Navinchandra Park, Civil Camp Road, Shahibaug, Ahmedabad - 380 004 u/s. 17(2) of the Income-tax Act.

4. Any sum paid by an Employer in respect of any expenditure actually incurred by an Employee on his/her medical treatment of any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules,1962, shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15,16 and 17 of the Income tax Act,1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.

5. The Hospital shall issue a certificate to the Employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the hospital and for medicines along with the relevant bills.

6. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-2, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.



प्राप्ती लिपिच/RECEIPT CLERK
 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
 Principal Chief Commissioner of Income-tax
 16 JUL 2020
 R 2288
 गुजरात, अहमदाबाद
 GUJARAT, AHMEDABAD

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (समन्वय) कार्या. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद
 20 JUL 2020
 प्रा. प्र. लिपिच
 प्रभाकर

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या) (कार्या. समन्वय)

7. The approval is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

8. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

- (a) The approval is not transferable.
- (b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf.
- (c) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Rules, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (d) The approval is valid for a period of **03 years** from **15/07/2020 to 14/07/2023.**

9. The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

Sd/-

(CHHAVI ANUPAM)

Chief Commissioner of Income tax-2,

Ahmedabad.

Copy to:

- (1) The Secretary, CBDT, New Delhi.
- (2) Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
- (3) The CCIT-1 / (TDS), Ahmedabad.
- (4) The CCIT, Baroda/ Rajkot / Surat.
- (5) The DGIT (Inv), Ahmedabad
- (6) The Principal Commissioner of Income-tax-4, Ahmedabad – w.r.t. his letter No.Pr.CIT-4/ /Tech./U/s.17(2)/Jeel/2018-19 dated 04/05/2020 recommending approval.
- (7) Pr. Commissioners of Income tax – 1/2/3/5/6/7/GNR, Ahmedabad.
- (8) The Addl. CIT, Range-4(2), Ahmedabad.
- (9) The DCIT, Circle-4(2), Ahmedabad.
- (10) The ITO (PRO/Welfare), Ahmedabad.
- (11) M/s. Jeel Children Hospital & Neonatal & Vaccination Centre
8/A Navinchandra Park, Civil Camp Road, Shahibaug, Ahmedabad – 380 004.



(Vijaya Gopalkrishnan) ITO (HQ)-2,
For, Chief Commissioner of Income-tax-2,
Ahmedabad.